

रूपए और पैसे




* कागज की एक शीट लें और उसको बीच से मोड़ें और खोल लें।

* दोनों कोनों 'अ' और 'ब' को इस तरह मोड़ें कि वे बिंदुओं वाली रेखा पर मिलें

* अब कागज की शीट कुछ इस तरह की दिखेगी ——————



* कागज की शीट के ऊपरी हिस्से को पीछे की तरफ मोड़ें ताकि शीट का पिछला हिस्सा कुछ ऐसा दिखे

और आगे का हिस्सा कुछ ऐसा दिखे ——————




* कागज की शीट के आगे वाले भाग को ऊपर रखें और 'क' और 'ग' वाले किनारों को इस तरह मोड़ें कि वे बिंदुओं वाली रेखा पर मिल सकें।


अब यह कुछ ऐसा दिखेगा ——————



- * ऊपरी हिस्से को बिंदियों वाली रेखा के बराबर मोड़ें जिससे यह कुछ इस तरह का दिखे –



- * पीछे के फ्लैप को नीचे मोड़ें और अब पैसे रखने के लिए बटुआ तैयार हो गया!



अपना बटुआ अपने पैसे

- ❖ अलग-अलग सिक्कों को इकट्ठा करो।
- ❖ एक सिक्के को किसी ठीक सी जगह पर रखो और उस पर एक पतला कागज़ रखो।
- ❖ एक हाथ से कागज़ को तान कर पकड़ो। पेंसिल की नोंक को सिक्के के ऊपर कागज़ पर घिसो।
- ❖ धीरे-धीरे सिक्के की छाप कागज़ पर उभर आएगी।
- ❖ छपे हुए कागज़ के सिक्के को काट कर बाहर निकालो और अपने बटुए में रखो।



अब कागज़ को काट कर कुछ नोट बनाओ और हर नोट पर उसकी कीमत लिखो।



पैसे का खेल

★ नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए पैसों की रकम दिखाओ।
(कुछ पैसे तुम अपने बनाए हुए बटुए में भी रख सकते हो।)

— छब्बीस रुपए



— 4 रुपए 75 पैसे

— 78 रुपए

— 130 रुपए

— 8 रुपए 75 पैसे


— 53 रुपए

हर चित्र में नोटों और सिक्कों से दिखाई गई पैसे की रकम को लिखो।




एक सौ एक रुपए





हम बाज़ार जाएँगे



ख) कुल कीमत का पता लगाओ –

- * एक खिलौना जिराफ़, एक कॉपी और एक गिलास नींबू पानी _____ रुपए
- * एक गिलास दूध, एक पैकेट बिस्कुट और एक केला _____ रुपए
- * एक कॉपी, दो पेंसिल और दो रबर _____
- * दो लटू, तीन टॉफ़ी और दो केले _____

ग) अगर तुम्हारे पास बीस रुपए का नोट हो तो तुम क्या-क्या खरीद सकते हो?

- * 1 खिलौना गाड़ी, 1 गिलास नींबू पानी, 1 केला

* _____, _____, _____

* _____, _____, _____

* _____, _____, _____

* _____, _____, _____



| रसीद | | | |
|-------|----------------|------|------|
| सामान | दर प्रति सामान | रुपए | पैसे |
| | | | |
| | | | |
| कुल | | | |

घ) तुमने जिन चीज़ों को खरीदा अब उसके लिए एक रसीद बनानी है।

इससे पहले कि हम इसे जोड़ें इसका अंदाज़ा लगाओ कि तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत होगी। उसके बाद पता करो कि कुल कितने पैसे हुए और देखो कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था।

मोनू ने नीचे दी गई रसीदें तैयार कीं –

इन रसीदों की जाँच करो और अगर उनमें तुम्हें कोई गलती दिखाई दे तो उसे ठीक करो।

| रसीद सेल्फ सर्विस स्टोर | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|
| सामान | दर प्रति सामान | रु | पैसे |
| 1 गेंद | 7 | 7 | 00 |
| 3 पेंसिल | 2.50 | 7 | 50 |
| 5 टॉफ़ी | | 2 | 50 |
| | कुल | 17 | 00 |

| रसीद सेल्फ सर्विस स्टोर | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|
| सामान | दर प्रति सामान | रु | पैसे |
| 1 खिलौना गड़ी | | 15 | 00 |
| 3 गिलास दूध | 3.50 | 10 | 00 |
| 4 नोटबुक | 5 | 20 | 50 |
| | कुल | 45 | 00 |

| रसीद सेल्फ सर्विस स्टोर | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|
| सामान | दर प्रति सामान | रु | पैसे |
| 1 खिलौना गड़ी | 6.50 | 6 | 50 |
| 3 पेंसिल | 2.50 | 7 | 50 |
| 7 टॉफ़ी | .50 | 3 | 50 |
| 1 बिस्कुट | 4.50 | 4 | 50 |
| | कुल | 21 | 50 |

* इन्हें जोड़ो –

क) रु 12.50
+ रु 13.00

ख) रु 55.50
+ रु 14.00

ग) रु 30.00
+ रु 31.50

* इन्हें घटाओ –

क) रु 25.50
- रु 11.50

ख) रु 103.50
- रु 62.00

ग) रु 19.50
- रु 7.00

च) तुम्हारे पास 30 रुपए हैं। पता लगाओ तुम्हारे पास कितना पैसा बचेगा अगर तुम इन सामानों को खरीदते हो –

* एक गेंद, एक गुड़िया और एक खिलौना जिराफ़ कुल कीमत ____। पैसे बचे ____।

* दो केले, एक पैकेट बिस्कुट और दो गिलास नींबू पानी कुल कीमत ____। पैसे बचे ____।





* तीन कॉपियाँ, दो पेंसिलें और दो रबड़
कुल कीमत ____। पैसे बचे ____।

अभ्यास का समय

क) तीन दोस्त मिलकर क्रिकेट का एक बैट
और गेंद खरीदना चाहते हैं।

बीना के पास 48.50 रुपए, रमन के पास
55.50 रुपए और वेणु के पास 38.00
रुपए हैं। कुल मिलाकर उनके पास कितने
रुपए हैं?




ख) हरि ने 62.50 रुपए का रेलवे का टिकट
लिया। उसने 100 रुपए का नोट दिया।
उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस
मिलेंगे?

ग) गीता अपने दोस्तों के साथ बाजार गई। उसने 58 रुपए, 37 रुपए और 22 रुपए²
का सामान खरीदा। गीता के पास सौ रुपए का नोट है। उसे बिल चुकाने के लिए
अपने दोस्तों से और कितने पैसे लेने होंगे?



घ)

मुंबई समाचार कारखाने से बच्चों को छुड़ाया



एक छूड़ी बनाने वाले कारखाने में काम करने वाले 10 छोटे बच्चों को आज छुड़ाया गया। एक संवाददाता और पुलिस ने उनका वहाँ बुरा हाल देखा। कारखाने में बच्चों से काफी मुश्किल काम कराए जाते थे। उन्हें एक दिन में केवल 20 रुपए मिलते थे।

बच्चे अपने गाँव के घर में वापिस जाकर बहुत खुश हुए। वे एक खास स्कूल में जाएँगे ताकि वे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह

पढ़ना-लिखना सीखें। बच्चों से इस तरह काम कराकर कारखाने का मालिक अपना पैसा बचाना चाह रहा था। अब पुलिस अपना काम करेगी।

चलो देखते हैं कि कारखाने वाले ने कितना पैसा बचाने की कोशिश की।

एक बड़े आदमी को काम के लिए मिलना चाहिए = 85 रुपए रोज़

एक बच्चे को दिए गए = 20 रुपए रोज़

एक व्यक्ति पर कारखाने ने बचाए 85 रुपए - _____ = 65 रुपए रोज़

10 बच्चों पर कारखाने ने बचाए

$$65 \text{ रुपए} \times 10 = \text{_____ रुपए रोज़}$$

पता लगाओ


तुम्हारे इलाके में क्या ऐसी दुकानें और कारखाने हैं जहाँ छोटे बच्चों से काम कराया जाता है?

इनमें से कुछ बच्चों से बात करो।

उन्हें वहाँ कितना पैसा मिलता है?

ज़रूरी नहीं है कि पैसे की समझ केवल खरीदने और बेचने को ही लेकर हो। शिक्षक इससे जुड़े हुए मुद्दों पर बच्चों के अपने अनुभवों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे मज़दूरी और काम आदि।





रेल-यात्रा

यह रेल नयी जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक जाती है। रास्ते में यह नया माल, अलीपुरद्वार और गोआलपारा स्टेशनों पर रुकती है।

अलग-अलग स्टेशनों के लिए रेल टिकट की कीमतें नीचे तालिका में दिखाई गई हैं।

| नयी जलपाईगुड़ी से दूरी (किलोमीटर में) | स्टेशन | किराया (रु में) |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| 57 | नया माल | 12.50 |
| 175 | अलीपुरद्वार | 28.00 |
| 366 | गोआलपारा | 49.50 |
| 495 | गुवाहाटी | 62.50 |

दूरी का पता लगाओ –

- क) नया माल से गुवाहाटी तक _____
ख) नया माल और गोआलपारा के बीच _____
ग) अलीपुरद्वार से गुवाहाटी तक _____
घ) नया माल और अलीपुरद्वार के बीच _____
च) गोआलपारा से गुवाहाटी तक _____

टिकट की क्रीमत का पता लगाओ –

- क) भूपेन को नयी जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार जाना है।
उसका टिकट कितने का होगा?
ख) इंदिरा को नयी जलपाईगुड़ी से गोआलपारा जाना है।
उसे टिकट के लिए कितने पैसे देने होंगे?
ग) देबू, सीमा और गोविंद नयी जलपाईगुड़ी से नया माल तक जा रहे हैं। तीन टिकटों
के लिए उन्हें कितने पैसे देने होंगे?
उन्होंने टिकटों के लिए 50 रुपए का नोट दिया। उन्हें कितना पैसा वापिस
मिलेगा?

अरे वाह! हमें हमारी रेल
के टिकट मिल गए

